



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 123) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 जनवरी 2024

सं० 1 स्था०-12/2023-167/वि०स०।- बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम-22 के अधिन वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त परामर्श के आलोक में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी, सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क संवर्ग के जनसंपर्क पदाधिकारी एवं सुरक्षा संवर्ग के मार्शल की विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद के माध्यम से लिये जाने हेतु निम्न पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2024

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2024 कहा जा सकेगा ।
- यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
- बिहार विधान सभा सचिवालय में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी एवं मार्शल की विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद के माध्यम से लिये जाने हेतु निम्न पाठ्यक्रम एवं विषय वही होगा जो नीचे वर्णित है –

सेवा संवर्ग	विषय
बिहार विधान सभा सचिवालय सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड 01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड 02) 3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड 07) 4. बिहार विधान सभा के कार्यों से संबंधित विशेष प्रश्न पत्र

उपर्युक्त अंकित-1 से 3 तक के विषयों का पाठ्यक्रम राजस्व पर्षद, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा। क्रमांक-4 पर अंकित विशेष प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय — भारत का संविधान, बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

राज कुमार,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 123-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>